

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2

PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 23, 1967/चैत्र 2, 1889

No. 6] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 23, 1967/CHAITRA 2, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate pagling is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March 1967

No. 14/6/67-Pub.I.—The President, on the advice of the Prime Minister, has been pleased to make the following appointments with effect from the forenoon of the 18th March, 1967:—

MINISTERS OF STATE

1. Shri Bhagwat Jha Azad.
2. Shri Inder Kumar Gujral.
3. Shri Malangi Shivalingadevaru Gurpadaswamy.

DEPUTY MINISTERS

1. Shri Bhakt Darshan.
2. Shri Rohanlal Chaturvedi.
3. Shri Dajisaheb Ramro Chavan.
4. Shri Daying Ering.
5. Shrimati Jahanara Jaipal Singh.
6. Shri Sena Chubatoshi Jamir.
7. Dr. (Shrimati) Sarojini Mahishi.

8. Shri Bayya Suryanarayana Murthy.
9. Shri Mohamed Shafi Qureshi.
10. Shri Kugalur Subbannagounder Ramaswamy.
11. Shri Jagluri Babu Muthyal Rao.
12. Shrimati Nandini Satpathy.
13. Shri Bhanu Prakash Singh.
14. Sardar Iqbal Singh.
15. Shri Surendra Pal Singh.

L. P. SINGH, Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1967

सं० 14/6/67-Pub. I.—राष्ट्रपति ने प्रधान मंत्री के परामर्श से निम्नलिखित मंत्रियों को 18 मार्च, 1967 के पूर्वान्त से सहर्ष नियुक्त किया :—

राज्य मंत्री

1. श्री भागवत झा आजाद
2. श्री इन्दर कुमार गुजराल
3. श्री मलंगी शिवलिंगादेवरू गुरुपदस्वामी

उप मंत्री

1. श्री भक्त दर्शन
2. श्री रोशनलाल चतुर्वेदी.
3. श्री दाजी साहब रामरो चव्हाण
4. श्री डेग ऐरिंग
5. श्रीमती जहानारा जयपाल सिंह
6. श्री मेना चुबातोशी जमीर
7. डा० (श्रीमती) मरोजिनी महीषी
8. श्री बहया सूर्यनागयण मूर्ति
9. श्री मोहम्मद शफी कुरेशी
10. श्री कुगलूर मुबन्नागाउंडर रामस्वामी
11. श्री जगलूरी बाबू मथियल राव
12. श्रीमती नन्दिनी सत्पथी
13. श्री भानु प्रकाश सिंह
14. सरदार इकबाल सिंह
15. श्री गुरेन्द्र पाल सिंह

ल० प्र० सिंह,
मन्त्रि ।